



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 श्रावण 1946 (शुक्रवार)
(सं० पटना 714) पटना, सोमवार, 5 अगस्त 2024

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना
2 अगस्त 2024

सं० सं०का-01/वि०मं०(महानुभाव)-08-03/2021/643—उप सचिव, बिहार विधान परिषद् के ज्ञापांक 1221(1) तथा ज्ञापांक 1223(1), दिनांक 19.07.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि माननीय मुख्य मंत्री—सह—सदन नेता, बिहार विधान परिषद् ने बिहार विधान परिषद् में निम्नांकित सूची में अंकित महानुभावों को दिनांक 19.07.2024 के प्रभाव से उप नेता/उप मुख्य सचेतक/सचेतक, सत्तारूढ़ दल के रूप में मनोनीत किया है। उक्त मनोनयन को माननीय कार्यकारी सभापति, बिहार विधान परिषद् द्वारा दिनांक—19.07.2024 के प्रभाव से मान्यता प्रदान की गयी है। जिन्हें बिहार विधान परिषद् की अधिसूचना संख्या—1220(1) तथा 1222(1), दिनांक 19.07.2024 द्वारा अधिसूचित किया गया है।

क्रम सं०	माननीय सदस्यों के नाम	पदनाम	प्राप्त सुविधा	प्रभाव की तिथि
1.	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, सं०वि०प०	उप नेता	मंत्री	19.07.2024
2.	श्री ललन कुमार सर्राफ, सं०वि०प०	उप नेता	मंत्री	19.07.2024
3.	श्री संजय प्रकाश, सं०वि०प०	उप मुख्य सचेतक	राज्य मंत्री	19.07.2024
4.	श्री नीरज कुमार, सं०वि०प०	सचेतक	उप मंत्री	19.07.2024
5.	श्रीमती रीना देवी, सं०वि०प०	सचेतक	उप मंत्री	19.07.2024

2—बिहार विधान मण्डल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006 के नियम-3 के तहत उप नेता/उप मुख्य सचेतक/सचेतक, सत्तारूढ़ दल को उनके नाम के सामने अंकित मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री के समान वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधायें दिनांक 19.07.2024 के प्रभाव से देय होंगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सुशील कुमार मिश्र,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 714-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>